

लख चोरासी का आणा जाणा, पल भर में दुःख हर लेग्या.....

(एक भगत के विशेष आग्रह पर)

सतगुरु के शरणे सेती म्हारा जनम मरण का भय मिटग्या ।

लख चोरासी का आणा जाणा, पल भर में दुःख हर लेग्या ॥ टेर ॥

पांच, पच्चीसों, चोर मारके, ठग नगरी सारी तजग्या ।

छोड़ दिया नेम, आचार यज्ञ तप, काल बली का भय मिटग्या ॥ १ ॥

कागा से गुरु हंसा करग्या, पत्थर से पारस करग्या ।

माणक मोती सारा तज के, बड़े अनमोल हीरा बनग्या ॥ २ ॥

त्रिवेणी में न्हाय धोय कर, कागा से हंसा बणग्या ।

बंकनाल की घाटी चढ़के, अमरलोक में पग धरग्या ॥ ३ ॥

अमृतनाथ जी दया करो दयाला, नैनं का लटका करग्या ।

दुर्गा शंकर दास गुरा का, चरणा का चाकर बणग्या ॥ ४ ॥

जय श्री नाथजी की.....